

@Shajahanpurpol

प्रेस नोट: सराहनीय कार्य 04.10.2020

थाना जैतीपुर पुलिस को मिली सफलता अवैध शस्त्र फैक्ट्री व शस्त्र बनाने के उपकरणों के साथ 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

श्री एस0आनन्द पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद मे अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु श्रीमती अपर्णा गौतम पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद शाहजहाँपुर के पर्यवेक्षण मे व श्री परमानन्द पाण्डेय क्षेत्राधिकारी तिलहर के निर्देशन मे थाना जैतीपुर पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली ।

दिनांक 04.10.2020 की रात्रि को थाना जैतीपुर की पुलिस टीम द्वारा बहगुल नदी पर बने पुल से उत्तर दिशा की तरफ करीब 100 मी0 अन्दर खडे जंगली पेडों की आड से गस्त , देखभाल क्षेत्र व तलाश वांछित अभियुक्त के दौरान 01 नफर अभियुक्त (पटेलाल पुत्र सकटेलाल उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम किसान गौटिया थाना जैतीपुर जिला शाहजहाँपुर) मय दो अदद तमंचा देशी 315 बोर व एक अदद बन्दूक 12 बोर व मय दो अदद कारतूस 315 बोर जिन्दा व एक अदद कारतूस 12 बोर जिन्दा व अर्ध निर्मित शस्त्र (दो अदद तमंचा 12 बोर व एक अदद नाल लोहा 12 बौर व दो अदद बट) शस्त्र बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया । इस संबंध मे थाना जैतीपुर पर अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

कार्यक्षेत्र:-

उपरोक्त अभियुक्त आपराधिक व शातिर किस्म का है जो जंगलो व सुनसान जगहो पर अवैध व नाजायज शस्त्र बनाकर आस पास के ग्रामीण इलाको मे बेचता है । इसका यही पेशा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1.पटेलाल पुत्र सकटेलाल उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम किसान गौटिया थाना जैतीपुर जिला शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 1.दो अदद तमंचा देशी 315 बोर नाजायज मय दो अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर ।
- 2.एक अदद बन्दूक 12 बोर नाजायज व एक अदद कारतूस 12 बोर जिन्दा ।
- 3.दो अर्धनिर्मित देशी तमंचे 12 बोर व एक अदद नाल लोहा 12 बौर व दो अदद बट ।
- 4.शस्त्र बनाने से सम्बन्धित सभी उपकरण ।

पंजीकृत अभियोग

- 1.मु0अ0स0 284/20 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर ।
- 1.मु0अ0स0 285/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सहरावत थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
- 2.उ0नि0 संजीव कुमार थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
- 3.उ0नि0 विपिन कुमार थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
- 4.का0 2306 गौरव तोमर थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
- 5.का0 2307 उज्जवल बालियान थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
- 6.का0 2157 विशाल अष्टवाल थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
- 7.का0 1821 नासिर खॉन थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर

